



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 आषाढ़ 1946 (श०)
(सं० पटना 570) पटना, मंगलवार, 2 जुलाई 2024

सं० अ०सं०क०-08-07/2008 (खण्ड-01)—1823
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

संकल्प

28 जून 2024

विषय:—राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, नई दिल्ली के टर्म लोन योजना क्रियान्वयन हेतु बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड, पटना को उपलब्ध कराये गये ऋण की बकाया राशि के भुगतान के संबंध में।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संलेख ज्ञापांक 1578 दिनांक 03.06.2024 में सन्निहित प्रस्ताव मंत्रिमण्डल की बैठक दिनांक 14.06.2024 में मद संख्या-01 के रूप में सम्मिलित किया गया। जो निम्न है :-

“मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 09.02.2024 के माद संख्या-35 में लिया गया निर्णय ‘ राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, नई दिल्ली को 2072.43 लाख रुपये इक्युटी पार्टिसिपेशन के मद में की गयी एवं तत्संबंधी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा निर्गत की गयी राजपाल के नाम शेयर्स सर्टिफिकेट बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम पर बकाये ऋण की राशि 2800.00 लाख रुपये में समायोजित करने हेतु उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में निहित प्रावधान के आलोक में शेयर्स सर्टिफिकेट समर्पित किया जायेगा’, को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए 2072.43 लाख (बीस करोड़ बहत्तर लाख तेतालिस हजार) रुपये की बकाया राशि को बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम द्वारा अर्जित सूद की राशि से भुगतान करने की स्वीकृति दी गयी”।

उपर्युक्त पर मंत्रीपरिसद की बैठक दिनांक-14.06.2024 के मद संख्या-01 में स्वीकृति प्रदान की गयी है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति सभी संबंधित विभाग/पदाधिकारी एवं कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध करायी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डा० अमीर आफाक अहमद फ़ैजी,
अपर सचिव-सह-निदेशक।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 570-571+10-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>